

## **\*प्रेस नोट\***

### **\*थाना सैदनगली पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा कर शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की हुई 02 मोटर साईकिल बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सैदनगली पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा कर शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 मोटर साईकिल बरामद हुई ।

संक्षिप्त विवरण:- अवगत कराना है कि आज दिनांक 26.06.2022 की प्रातः थाना सैदनगली पुलिस द्वारा सूचना पर ढक्का मोड़ से अभियुक्त असलम पुत्र अशरफ निवासी ग्राम ढक्का थाना सैदनगली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसका एक साथी अंधेरे का लाभ लेकर मौके से फरार हो गया । गिरफ्तार अभियुक्त असलम के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 02 मो0सा0 1. मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 न0 UP22AQ0161 व 2. मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 न0 UP14EM2389 बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सैदनगली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है । फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जोकि आर्थिक लाभ लेने हेतु नोएडा व आसपास के क्षेत्रों से दोपहिया वाहनों की चोरी कर फर्जी कागजात बनाकर व वाहनों की नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते है । पूछताछ पर अभियुक्त असलम द्वारा बरामद मो0सा0 स्पलेन्डर प्लस न0 UP14EM2389 को दिनांक 07.04.2022 को नवनीत बिहार जनपद गाजियाबाद से अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी करना

बताया गया जिसके सम्बन्ध में थाना खोडा, गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 297/2022 धारा 379 पंजीकृत है ।



● ○ REDMI NOTE 8 PRO  
∞ AI QUAD CAMERA

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. असलम पुत्र अशरफ निवासी ग्राम ढक्का थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।

**बरामदगी का विवरण:-** चोरी की संदिग्ध दो मोटर साईकिलें ।

1. मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 न0 UP22AQ0161  
रंग काला चैसिस न0 MBLHAW096LHA77367 व इंजन न0 HA10AGLHA39742
2. मोटर साईकिल स्पलेन्डर प्लस रजि0 न0 UP14EM2389,  
रंग काला चैसिस न0 MBLHAW114LHGC3474 व इंजन न0 HA11EVLHG94827

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त असलम:-**

1. मु0अ0सं0 149/2022 धारा 420/413/414 भादवि व 41/102 दं0प्र0सं0 थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अरिहन्त कुमार सिद्धार्थ थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 श्री चुन्नीलाल थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
4. का0 692 सलीम अली थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
5. का0 297 गौरव कुमार थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
6. का0 151 अखिलेश कुमार थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।
7. का0 834 अजय थाना सैदनगली जनपद अमरोहा ।

\*PRO CELL AMROHA\*